



बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड  
(भारत सरकार का एक उद्यम)  
**Balmer Lawrie & Co. Ltd.**  
(A Government of India Enterprise)

हिंदी दिवस : 14 सितम्बर, 2019

## संदेश



सभी कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में वहां की राष्ट्र भाषा का अहम योगदान होता है। राष्ट्रभाषा की वही भूमिका है जैसे शरीर में रक्तवाहिनियों की । हमारा देश अपने आप में कई विविधताओं को समेटा हुआ है । लेकिन इन विविधताओं को भी एकरूपता प्रदान करती है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी । हिंदी को भारतीय संविधान सभा ने, 14 सितम्बर 1949 को, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था । इसी स्मृति में हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

राष्ट्र के अस्तित्व के लिए राष्ट्रभाषा की बहुत ही अहम भूमिका है । वर्तमान में देश की लगभग 45 फीसदी आबादी हिंदी को अपनी मातृ-भाषा के रूप में स्वीकारती है । जनगणना के इन आंकड़ों से इतर, हिंदी अब, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर देश-दुनिया की जुबान बन रही है । विश्व के सभी प्रमुख विकसित एवं विकासशील देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके उन्नत हुए हैं ।

हमारी कंपनी में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हमारा यह उद्देश्य है कि कंपनी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए ।

मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में आप सभी उत्साह से भाग लेकर राजभाषा हिंदी के विकास में गति लाएंगे और राजभाषा हिंदी का उपयोग केवल हिंदी पखवाड़े के दौरान ही नहीं बल्कि वर्ष भर करने के हर संभव प्रयास करेंगे ।

धन्यवाद,

प्रबाल बासु  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

\*\*\*\*\* ध्यान देने योग्य बातें \*\*\*\*\*

- हिंदी में बातचीत और बैठकों में भी हिंदी में चर्चा करें
- पत्रों, रजिस्ट्रों, फॉर्म एवं वाउचर ईत्यादि पर हिंदी में हस्ताक्षर करें
- सभी व्यक्तिगत दावों/क्लेम्स हिंदी में करें
- हिंदी में प्राप्त पत्रों/मेल का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दें
- नोटिंग/टिप्पण हिंदी में लिखें
- हिंदी पत्राचार बढ़ाएँ और हिंदी प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएँ
- हिंदी के छोटे-छोटे व आसान शब्दों का प्रयोग करें
- गेस्ट हाउस एवं वाहन के लिए ई-मेल अनिवार्य रूप से हिंदी में करें